

मुख्य पोस्ट मास्टर जनरल डाक
परिमंडल, के पत्र क्रमांक 22/153,
दिनांक 10-1-06 द्वारा पूर्व भुगतान
योजनान्तर्गत डाक व्यय की पूर्व अदायगी
डाक द्वारा भेजे जाने के लिए अनुमत.



पंजी. क्रमांक भोपाल डिवीजन
म. प्र.-108-भोपाल-09-11.

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 368]

भोपाल, गुरुवार, दिनांक 8 जुलाई 2010—आषाढ़ 17, शक 1932

विधान सभा सचिवालय, मध्यप्रदेश

भोपाल, गुरुवार, दिनांक 8 जुलाई 2010' (आषाढ़ 17, 1932)

विधान सभा की सदस्यता से त्याग-पत्र

क्र. 13474-वि.स.-विधान-2010.—मध्यप्रदेश विधान सभा के निर्वाचन क्षेत्र क्रमांक 183 महेश्वर, (अ.जा.) से निर्वाचित सदस्य
डॉ. विजयलक्ष्मी साधो ने विधान सभा के अपने स्थान से त्याग-पत्र दे दिया है. जिसे माननीय अध्यक्ष, विधान सभा द्वारा दिनांक
22 जून 2010 से स्वीकृत किये जाने के कारण मध्यप्रदेश विधान सभा में उक्त एक स्थान रिक्त हो गया है.

डॉ. ए. के. पयासी
प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा.